

बिहार में अतपिछिड़ा वर्ग आयोग गठित

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2022 को राज्य सरकार ने जदयू के वरिष्ठ नेता डॉ. नवीन चंद्र आर्या की अध्यक्षता में अतपिछिड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के दशानरिदेशों के अनुसार नकियाय चुनाव में अतपिछिड़ों के लिये आरक्षण की अनुशंसा करेगा।

प्रमुख बिंदु

- आयोग के अन्य सदस्यों में अरविद नषिद, वनिद भगत, ज्ञानचंद्र पटेल एवं तारकेश्वर ठाकुर शामिल हैं। पहली बार इस आयोग का गठन 2006 में किया गया था। आयोग को रिपोर्ट देने के लिये अधिकतम तीन महीने का समय दिया गया है।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि वह अतपिछिड़ा वर्ग आयोग (ईबीसी कमीशन) से अतपिछिड़ों की स्थितिका आकलन कराने के बाद वसितृत रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य सरकार के इस नरिणय के बाद हाईकोर्ट का 4 अक्टूबर का फैसला यथावत रह गया।
- राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्रवचिार याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पक्ष रखा गया, जसै कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के नकियाय चुनाव कराए जाएंगे।
- इसके लिये 2005 में अस्तित्व में आए बिहार ईबीसी आयोग को बतौर डेडकिंटेड कमीशन पुनर्रजीवित किया गया है। आयोग जल्द अतपिछिड़ों के राजनीतिक पिछड़ेपन से जुड़े+ आँकड़े जुटा कर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। रिपोर्ट के अवलोकन के बाद ही राज्य नरिवाचन आयोग बिहार में नकियाय चुनाव अधिसूचित करेगा।
- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि स्थानीय नकियाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है, जब सरकार ट्रपिल टेस्ट कराए। सरकार ये पता लगाए कि किस वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मलि रहा है।